



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 3, 2012/पौष 13, 1933

No. 1]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 3, 2012/PAUSA 13, 1933

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिसूचना

मुम्बई, 3 जनवरी, 2012

सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2011-12/32/85.—

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, वडोदरा स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड जिसका अपना रजिस्ट्रीकृत कार्यालय तीसरी मंजिल, फॉर्च्युन टॉवर, सयाजीगंज, वडोदरा-390 005 में स्थित है द्वारा प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन किए गए मान्यता के नवीकरण के लिए आवेदन पर विचार करते हुए और यह समाधान हो जाने पर कि यह व्यापार के हित में होगा और ऐसा करना लोकहित में भी होगा, एतद्वारा, प्रतिभूति सविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त एक्सचेंज को मान्यता का नवीकरण उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन 4 जनवरी, 2012 को प्रारंभ होने वाली और 3 जनवरी, 2013 को समाप्त होने वाली एक वर्ष की कालावधि के लिए प्रतिभूतियों में सविदाओं की बाबत इसमें इसके नीचे कथित या इसके पश्चात् विहित या अधिरोपित शर्तों के अधीन प्रदान करता है :

- एक्सचेंज भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा अधिरोपित समस्त विनियामक अपेक्षाओं का अनुपालन करने के पश्चात् ही प्रतिभूतियों में व्यापार प्रारंभ कर सकता है।
- एक्सचेंज ऐसी अन्य शर्तों का अनुपालन करेगा जो भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित की जायें।

राजीव कुमार अग्रवाल, पूर्णकालिक सदस्य
[विज्ञापन III/4/69-जैड बी/11/असा.]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd January, 2012

No. LAD-NRO/GN/2011-12/32/85.—The Securities

and Exchange Board of India, having considered the application for renewal of recognition made under Section 3 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 by Vadodara Stock Exchange Limited, having its registered office at 3rd floor, Fortune Tower, Sayajigunj, Vadodara-390005 and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also in the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred under Section 4 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956, renewal of recognition to the said Exchange under Section 4 of the said Act for a period of one year commencing on the 4th day of January, 2012 and ending on 3rd day of January, 2013 in respect of contracts in securities subject to the conditions stated herein below or as prescribed or imposed hereafter :

- The Exchange can commence trading in securities only after complying with all the regulatory requirements imposed by the Securities and Exchange Board of India
- The Exchange shall comply with such other conditions as may be prescribed by SEBI from time to time

RAJEEV KUMAR AGARWAL, Whole Time Member,
[ADVT III/4/69-ZB/11/Exty.]